

आगरा मण्डल के जी. आई. सी. ग्राउंड, पचकुईयां में दिनांक 23-12-2019 को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया जिसमें वैज्ञानिक संवाद, किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया ! ब्रह्माकुमारीज को किया गया आमंत्रित!

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री चौधरी उदयभान सिंह जी माननीय राज्य मंत्री , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, विशिष्ट अतिथि डॉ. जी. एस. धर्मेश जी माननीय राज्यमंत्री समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित रहे! तथा श्री एस. पी सिंह बघेल जी माननीय सांसद आगरा, श्री राजकुमार चाहर जी माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी, मुख्य विकास अधिकारी आगरा जे. रीभा जी विधायक खेरागढ श्री महेश चन्द गोयल जी, विधायक एतमादपुर श्री रामप्रताप सिंह चौहान जी की गरिमामयी उपस्थिति रही! शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ किसानों ने काफी संख्या में भाग लिया !

ब्रह्माकुमारी शशी बहिन ने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसान देश की शान है त्याग तपस्या का दूसरा नाम है! किसान देश के अर्थ व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है! आज खेती में उपयोग किये जा रहे रासायनिक खादों से सभी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है उन्होंने किसानों को जैविक यौगिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जैविक यौगिक खेती के लाभ बताते हुए कहा कि इससे खेती की लागत कम होगी और आय बढ़ेगी फसल स्वास्थ्यवर्धक होगी तथा राजयोग के प्रयोग से मानसिक शांति मिलेगी व्यसनों बुरी आदतों से मुक्त होकर किसान का जीवन भी सुख से , शान से जीने वाला होगा तभी सही मायने में सार्थक होगा राष्ट्रीय किसान दिवस! तथा सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देकर उनका सम्मान किया!

माननीय राज्य मंत्री श्री चौधरी उदयभान सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसान खेती के साथ-2 फ्री समय में छोटे-2 उद्योगों से अपना आय स्तर बढ़ा सकता है! उन्होंने ब्रह्माकुमारीज का जैविक यौगिक खेती द्वारा उत्तम खेती के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया!

विधायक एतमादपुर श्री राम प्रताप सिंह जी ने कहा कि सरकार से मिलने वाली मदद सीधे किसानों तक पहुंचे सभी अधिकारीगण से सहयोग की अपेक्षा की!

माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी श्री राजकुमार चाहर ने कहा कि सरकारी नीतियों की एक बुकलेट तैयार की जाये तथा सभी गाँवों में उसका वितरण हो !

उप कृषि निदेशक श्री महेंद्र सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उनकी विशेषताओं को याद करते हुए कहा की वो किसानों के नायक थे! तथा उन्होंने ब्रह्माकुमारीज को गाँवों की किसान गोष्ठी में आने का आमंत्रण दिया!

ईश्वरीय सेवा में

बीके शशी बहिन

आगरा सबज़ोन कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग कोऑर्डिनेटर

Mob. 8279824629, 8077019803

navpura.agr@bkivv.org